



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1093]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2003/अग्रहायण 18, 1925

No. 1093]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2003/AGRAHAYANA 18, 1925

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1401(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारत का राजपत्र असाधारण ,

भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 8 मई, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 8 मई, 2003 की अधिसूचना सं० का० आ० 516(ई) द्वारा उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त संस्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 21 मई, 2003 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958(1958 का 24) की धारा 4 की उप धारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।



प्रागैतिहासिक चित्रयुक्त चट्टानों में विश्रामालय का स्थल मानचित्र
चतुर्भुज नाला, तहसील-मानपुरा
जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश)



40 0 40 200 मीटर

संकेत:-

वन क्षेत्र नं. 1065 ————
नाला ————
चित्रयुक्त चट्टानों में विश्रामालय ————



संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र: ————

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	प्राचीन स्मारक का नाम	संलग्न मानचित्र के अनुसार संरक्षण के अधीन शामिल करने हेतु प्रस्तावित राजस्व भूखंड सं०/वन उपखंड सं०	उपखंड 1 सं० 08 में दर्शाए गए भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	स्वामित्व	सम्पूर्ण उपखंड सं० की सीमाएं	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मध्य प्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	चतरभुज नाला	प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय	उपखंड सं० 1065 का भाग	61.141	मध्य प्रदेश सरकार (वन विभाग) गांधी सागर अभयारण्य	उत्तर-उपखंड सं० 1066 एवं 1067 दक्षिण-उपखंड सं० 1017 पूर्व: उपखंड सं० 1064 एवं 1066 पश्चिम-उपखंड सं० 1015	
					उपखंड सं० 1067 का भाग	44.600	मध्य प्रदेश सरकार (वन विभाग) गांधी सागर अभयारण्य	उत्तर-उपखंड सं० 1066 एवं मध्य प्रदेश की राज्य सीमा दक्षिण: उपखंड सं० 1015 1065 एवं 1066	

[एफ. सं. 2-23/2001-एम]

**DEPARTMENT OF CULTURE
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA**

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2003

S.O. 1401(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 516(E) dated the 8th May, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 8th May, 2003 the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule to the said notification to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument;

And, whereas copies of the said Gazette was made available to the public on 21st May, 2003;

And, whereas no objection from the public have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(ii) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958(24 of 1958), the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.



**SITE PLAN OF
PREHISTORIC PAINTED ROCK SHELTERS AT
CHATARBHUJ NALA**
TEHSIL- BHANPURA, DISTRICT- MANDSAUR, STATE- MADHYA PRADESH.



40 0 40 200
METRES

INDEX:

FOREST COMPARTMENT No.1065 ————
NALA ————
PAINTED ROCK SHELTERS ————



AREA PROPOSED FOR PROTECTION —

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the ancient monument	Revenue Plot Number/Forest Compartment, Number proposed to include under Protection. As per plan attached.	Area in Hectare of the part shown in C.I. No. 6	Ownership	Boundaries of the entire compartment Number	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Madhya Pradesh	Mandsour	Bhanpura	Chatarbhuj Nala	Prehistoric Painted Rock Shelters	Part of C. No. 1065	61.141	Government of Madhya Pradesh (Forest Department) Gandhi Sagar, Sanctuary	North C. No. 1066 & 1067 South C. No. 1017 East C. No. 1064 & 1066 West C. No. 1015	
					Part of C. No. 1067	44.600	Government of Madhya Pradesh (Forest Department) Gandhi Sagar, Sanctuary	North C. No. 1069 & State Boundary of M.P. South C. No. 1015, 1065 & 1066 East C. No. 1068 West C. No. 1013	
					Part of C. No. 1015	67.250	Government of Madhya Pradesh (Forest Department) Gandhi Sagar, Sanctuary	North C. No. 1067 South C. No. 1016 East C. No. 1065 & 1066 West C. No. 1014	
					Part of C. No. 1014	8.065	Government of Madhya Pradesh (Forest Department) Gandhi Sagar, Sanctuary	North C. No. 1013 South C. No. 1012 & 1015 East C. No. 1015 West C. No. 1012 & 1013	

[F. No. 2-23/2001-M]

GAURI CHATTERJI, Director General and Addl. Secy.